

fake cricket products : खेल का नकली सामान बेचने का भंडाफोड़, एक लाख का माल बरामद

Meerut News

Publish Date: Mon, 26 Aug 2019 12:44 PM (IST)



यदि आप ऑनलाइन खेल का सामान खरीदने जा रहे हैं तो जरा चौकन्ने हो जाएं। पुलिस ने मेरठ में एसजी कंपनी के खेल के नकली सामान को ऑनलाइन बेचे जाने का भंडाफोड़ किया है।

मेरठ, जेएनएन। fake cricket products खेल का सामान वाली एसजी कंपनी का नकली माल ऑनलाइन बेचा जा रहा था। गुरुग्राम से आयी टीम ने पांच माह तक नजर रखने के बाद मेडिकल थाना पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। इस दौरान करीब एक लाख रुपये का माल भी बरामद हुआ।

जांच में यह बात आई सामने

गुरुग्राम की ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि एसजी कंपनी उनकी क्लाइंट हैं। कंपनी को काफी समय से नकली सामान ऑनलाइन बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। उन्होंने जांच की तो पता चला कि मेरठ की कोहिनूर जेम्स एंड समुद्र जेम्स फर्म स्नैपडील और शॉपक्लेज पर एसजी कंपनी का नकली माल बेच रही है।

पांच महीने तक रखी नजर

पांच माह तक नजर रखी गई। रविवार को टीम ने मेडिकल थाना पुलिस के साथ मिलकर जागृति विहार के दिव्या कुंज अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर छापा मारा। यहां से एक लाख रुपये का नकली सामान भी बरामद हुआ। धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि फर्म अनाक्षी अग्रवाल के नाम पर है। फ्लैट में भी वही रहती है। रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।

सूरजकुंड से खरीदा जाता था माल

धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि फर्म की मालकिन माल सूरजकुंड के स्पोर्ट्स मार्केट से खरीदती थी। केश में माल खरीदा जाता था। इसके बाद उसे ऑनलाइन बेचा जाता था। फर्म की साइट पर करीब 15 ब्रांडेड कंपनी के 633 उत्पाद मौजूद हैं। करीब ढाई साल से यह धंधा चल रहा था। एसजी का नकली माल छह-सात माह से बेचा जा रहा था। रविवार की कार्रवाई में टीम ने बल्ले, बॉल, किट बैग, पैड आदि सामान बरामद हुआ है।

21 अगस्त को भी हुई थी कार्रवाई

शहर में बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स का नकली माल बनाया और खपाया जा रहा है। ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्रा. लि. ने 21 अगस्त को टीपीनगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। तब तीन लाख रुपये का माल बरामद हुआ था।

Posted By: Prem Bhatt

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/meerut-city-fake-cricket-products-of-sg-company-busted-in-meerut-19520075.html>